



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 193) पटना, बुधवार, 21 जनवरी 2015

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

20 जनवरी 2015

सं0 8/व० 3-157/03 अंश-I-55—“बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2013” (अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09.2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित की जाने वाली समिति में एक वरीयतम शिक्षक को तथा दो छात्र-छात्रा के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा गया है।

“ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 ” की धारा-21 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर “ बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 ” के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालय के एक वरीयतम शिक्षक एवं छात्र-छात्रा के दो प्रतिनिधि को “विशेष आमंत्रित सदस्य” के रूप में समिति में रखा जाता है। उन्हें किसी विषय पर मत विभाजन की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। समान मत होने पर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। जिला द्वारा एवं विद्यालय शिक्षा समिति के निबंधन पदाधिकारी के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 193-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>